

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 15—सितम्बर 21, 2018 (भाद्र 24, 1940)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 15—SEPTEMBER 21, 2018 (BHADRA 24, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

नीति आयोग

(विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

सं.ए-19011/14/2017-डीएमईओ (प्रशा.)—सेवानिवृत्ति उम्र सीमा प्राप्त करने पर, श्री ए. राम मोहन राव (आई.ई.एस: 2003), निदेशक, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग, नई दिल्ली को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त की जाती है और तदनुसार दिनांक 31.08.2018 (अपराह्न) से उनका नाम डीएमईओ के रोल से हटा दिया जाता है।

प्रशांत कुमार सिंह

अवर सचिव

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)
(प्रशासनिक विभाग)

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

सं. डीपी/कार्मिक-1/2018/3755/03/15/2016.—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर तैनात श्री सनी भार्गव, इन्कम टैक्स ऑफिसर की सेवाएं समयपूर्व प्रत्यावर्तन पर दिनांक 16.08.2018 के अपराह्न से उनके पैतृक विभाग अर्थात् इन्कम टैक्स को वापस सौंपी जाती हैं।

डी.पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)
के.अ.ब्यू.(मु.): नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

सं.आई-14011/15/2017-आईपीएस-1(II).—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत केरल संवर्ग प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1	जमालुद्दीन ए0के0	15.03.1960
2	अब्दुल करीम यू0	05.04.1961
3	एंथोनी के0 एम0	28.05.1960
4	सुकुमार पिल्लै जे0	30.05.1960
5	जेवियर टी0 एफ0	18.05.1961
6	साबू पी0 एस0	29.05.1961
7	विजया कुमारन के0 पी0	24.05.1960
8	विमल के0 एस0	30.05.1960
9	जेम्स जोसफ	31.05.1960
10	टोमी के0 एम0	09.01.1960
11	मधु के0पी0	11.12.1961
12	सुकेशन आर0	30.05.1961

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्तियों अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

अजय कुमार सिंह
अवर सचिव

सं. आई-14011/15/2017-आईपीएस-1(I).—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 09.08.2018 को चयन समिति की

दिनांक 04.07.2018 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2016 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा में कुल 13 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु केरल पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :-

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्मतिथि
1	जमालुद्दीन ए०के०	15.03.1960
2	अब्दुल करीम यू०	05.04.1961
3	एंथोनी के० एम०	28.05.1960
4	सुकुमार पिल्लै जे०	30.05.1960
5	जेवियर टी० एफ०	18.05.1961
6	साबू पी० एस०	29.05.1961
7*	रामचन्द्रन सी०के०	01.06.1961
8	विजया कुमारन के० पी०	24.05.1960
9	विमल के० एस०	30.05.1960
10	जेम्स जोसफ	31.05.1960
11	टोमी के० एम०	09.01.1960
12	मधु के०पी०	11.12.1961
13	सुकेशन आर०	30.05.1961

*क्रम संख्या 7 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक एवं आपराधिक मामले के निपटान और राज्य सरकार से सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र प्रदान करने के अध्वधीन सूची में अनन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

अजय कुमार सिंह
अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2018

सं.14015/01/2017-अ.भा.से.(I)ख.—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नाम के सम्मुख दिए गए व्यौरे के अनुसार अपने दिनांक 10.08.2018 के पत्र सं. 6/01/2018-अ.भा.से. के माध्यम से निम्नलिखित नाम को वर्ष 2015 की चयन सूची में शामिल किए जाने को 'बिना शर्त और अंतिम' घोषित किए जाने, जिसे इस विभाग के दिनांक 12.02.2018 की अधिसूचना सं. 14015/01/2017-अ.भा.से.(1)-ए द्वारा अधिसूचित किया गया था, के परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची 2015 (एससीएस) के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं :-

2015 की चयन सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्रीमती/श्री)	जन्म तिथि	चयन सूची में स्थान
1.	टी. वीराब्रह्मैया	(12.06.1959)	दिनांक 30.01.2018 को तैयार की गई वर्ष 2015 की चयन सूची में क्र.सं.2 पर है

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

पंकज गंगवार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

सं. 22012/38/2017-अ.भा.से.(I)-क.—श्री ए. बी. धुलाज द्वारा मुम्बई स्थित माननीय मुम्बई न्यायपीठ में दायर ओ.ए. सं. 2075/2017 में दिए गए दिनांक 11.04.2018 के आदेशों के अनुसरण में तथा इस विभाग के दिनांक 08.07.2016 की अधिसूचना सं. 14015/14/2016-अ.भा.से.(I)-ए(1) में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत दिनांक 27.07.2018 की समीक्षा के आधार पर तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के तहत 24.08.2013 को अनुमोदित की गई वर्ष 2015 की समीक्षा सूची को अधिसूचित करते हैं:-

वर्ष 2015 की समीक्षा सूची

मूल चयन सूची में जोड़ी गई क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
9ए	ए.बी. धुलाज	01.06.1969

पंकज गंगवार
अवर सचिव

सं. 22012/38/2017-अ.भा.से.(I)-ख.—श्री ए. बी. धुलाज द्वारा मुम्बई स्थित माननीय मुम्बई न्यायपीठ में दायर ओ.ए. सं. 2075/2017 में दिए गए दिनांक 11.04.2018 के आदेशों के अनुसरण में तथा इस विभाग के दिनांक 08.07.2016 के अधिसूचना सं. 14015/14/2015-अ.भा.से.(I)-ए(1) में भी आंशिक संशोधन के आदेशों के अनुपालन में राष्ट्रपति, समीक्षा चयन सूची, वर्ष 2015 के आधार पर राज्य सरकार के साथ परामर्श से उक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए महाराष्ट्र संवर्ग के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत महाराष्ट्र संवर्ग आवंटित करते हैं:

वर्ष 2015 की समीक्षा सूची

मूल चयन सूची में जोड़ी गई क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
9ए	ए.बी. धुलाज	01.06.1969

पंकज गंगवार
अवर सचिव

सं. 23012/01/2015-अ.भा.से.-III.—श्री देवी लाल, आई.ए.एस (गुजरात:2016) को अपना नाम “देवी लाल से बदल कर देव चौधरी” करने की अनुमति दी गई है। तदनुसार, सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए उन्हें “देव चौधरी” के रूप में जाना जाएगा।

ज्योत्सना गुप्त
अवर सचिव

सं. 23012/01/2015-अ.भा.से.।।।.—सुश्री रीना निरंजन, आईएएस (डब्ल्यूबी:2013) को अपना नाम “सुश्री रीना निरंजन” से बदल कर “सुश्री रीना जोशी” करने की अनुमति दे दी गई है। तदनुसार, उन्हें सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए “सुश्री रीना जोशी” के रूप में जाना जाएगा।

ज्योत्स्ना गुप्त
अवर सचिव

सं० 14012/02/2014 अ.भा.से.—।—क.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्रीमती वी.एस. अलागु वारसिनी को दिनांक 03/09/2014 से स्थायी करते हैं।

ज्योत्स्ना गुप्त
अवर सचिव

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

सं. 14015/24/2018-अ.भा.से.(।)।—क भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा उक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग में पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 02.08.2018 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के तहत 30.08.2018 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों को समाविष्ट करने वाली पश्चिम बंगाल के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं:-

2017 की चयन सूची (1.1. 2017 से 31.12. 2017 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	तरूण कुमार मुखोपाध्याय	05.01.1963
2.	दीपांकर चौधरी	22.06.1966
3.	रबीन्द्र नाथ सरकार	07.05.1961
4.	श्रीमती ईशा सेनगुप्ता	25.01.1964
5.	श्रीमती शर्मिष्ठा दास	16.06.1967
6.	निलंजन सांदिया	03.03.1965
7.	सौम्य पुरकैत	25.12.1967
8.	श्रीमती दीपिका सन्यामत	16.12.1967
9.	सृष्टिधर संतरा (अ.जा.)	02.11.1963
10.	पेम्बा तशरिंग शेखा (अ.ज.जा.)	03.01.1963
11.	अलोकेश प्रसाद राय	26.12.1964
12.	श्रीमती महुआ बनर्जी	02.01.1964
13.	जयंत कुमार ऐकात	03.09.1963
14.	सौमित्र शंकर सेनगुप्ता	08.03.1967
15.	गौतम मजुमदार	24.04.1964

16.	ज्योतिषमन चट्टोपाध्याय	13.10.1967
17.	उत्पल विश्वास-॥	25.09.1965

पंकज गंगवार
अवर सचिव

सं. 14015/24/2018-अ.भा.से.(I)-ख.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची 2017 के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल संवर्ग आवंटित करते हैं:

2017 की चयन सूची (1.1. 2017 से 31.12. 2017 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	तरूण कुमार मुखोपाध्याय	05.01.1963
2.	दीपांकर चौधरी	22.06.1966
3.	रवीन्द्र नाथ सरकार	07.05.1961
4.	श्रीमती ईशा सेनगुप्ता	25.01.1964
5.	श्रीमती शर्मिष्ठा दास	16.06.1967
6.	निलंजन सांदिया	03.03.1965
7.	सौम्य पुरकैत	25.12.1967
8.	श्रीमती दीपिका सन्यामत	16.12.1967
9.	सृष्टिधर संतरा (अ.जा.)	02.11.1963
10.	पेम्बा तशरिंग शेर्पा (अ.ज.जा.)	03.01.1963
11.	अलोकेश प्रसाद राय	26.12.1964
12.	श्रीमती महुआ बनर्जी	02.01.1964
13.	जयंत कुमार ऐकात	03.09.1963
14.	सौमित्र शंकर सेनगुप्ता	08.03.1967
15.	गौतम मजुमदार	24.04.1964
16.	ज्योतिषमन चट्टोपाध्याय	13.10.1967
17.	उत्पल विश्वास-॥	25.09.1965

पंकज गंगवार
अवर सचिव

सं. 44011/20(एस)/2015-स्था.(ख).—सुश्री गौरी कुमार, सदस्य लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने दिनांक 20.08.2018 (पूर्वाह्न) से दिनांक 27.09.2018 अर्थात् सदस्य, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) में सदस्य के रूप में कार्यकाल के पूरा होने की तिथि अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो तक के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त भार को ग्रहण किया है।

स्मिता सारंगी
उप सचिव

सं. 44011/14(एस)/2015-स्था.(ख-॥)(पार्ट-॥).—श्री अंशुमान दास ने दिनांक 18.18.2018 (अपराह्न) से लोक उद्यम चयन बोर्ड(पीईएसबी) के सदस्य के पदभार एवं अध्यक्ष के अतिरिक्त पदभार को त्याग दिया है।

स्मिता सारंगी
उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2018

सं. ए. 19011/11/2018-प्रशा.-राजपत्रित.—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.07.2018 के आदेश सं. 18/2/2018-ईओ(एमएम-1) के अनुसरण में, श्री प्रोवाश रंजन विसवास, भा.आ.नि.से. (2002) को दिनांक 27.08.2018 के पूर्वाह्न से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

देवाशीष हलदर
अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

सं. ए- 38012 (03)/2018-आ.सला. (प्रशा.).- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के पद पर कार्यरत श्रीमती सुनिता छिब्बा 31 अगस्त, 2018 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

गोपाल सिंह नेगी
आर्थिक सलाहकार

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

सं.-38013/2/2017-स्था.—श्री विजय कुमार वर्मा, अनुभाग अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त हो जाने पर दिनांक 31.05.2018 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जय श्री शिवकुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

सं. ए-42011/19/2018-स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31/19/2018-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में 2016 बैच के निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों को पै-मैट्रिक्स के लेवल 10 (56,100-1,77,500 रूपए) के में वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली में सहायक सचिव के पद पर दिनांक 02.07.2018 से 28.09.2018 तक के लिए नियुक्त करते हैं।

1. श्री श्रीकांतएच.एस. (तमिलनाडु कैडर)
2. श्री शशांक त्रिपाठी (उत्तर प्रदेश कैडर)

जयश्री शिवकुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2018

सं.ए-12022/02/2017-स्था.—राष्ट्रपति, श्री अतुल कुमार तिवारी, आईएएस (कर्नाटक:90) को, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.06.2018 के पत्र सं. 36/02/2018-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में, मंत्रालय में अपर सचिव के रिक्त पद को अस्थायी तौर पर अवनयन (डाउनग्रेड) करके 16 जुलाई, **2018** के पूर्वाह्न से पे-मैट्रिक्स के लेवल-14 (1,44,200-2,18,200/- रूपए) में वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईश्वर शरण
अवर सचिव

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

सं.ए-19011/1/2018-स्था.—राष्ट्रपति, श्री राघवेन्द्र सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पश्चिम बंगाल :1983) को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (एसीसी) के दिनांक 09.08.2018 के पत्र सं. 36/01/2018-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में दिनांक 10 अगस्त, 2018 के पूर्वाह्न से सचिव, वस्त्र मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

जयश्री शिवकुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2018

सं.ए-19013/3/2018-स्था.—राष्ट्रपति, श्री बलराम कुमार द्वारा इस समय धारित उप-सचिव के पद को उनके लिए निजी उपाय के रूप में निदेशक के रूप में पुनः पदनामित किए जाने के परिणामस्वरूप कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.08.2018 के का.ज्ञा.सं. 10/4/2018-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में श्री बलराम कुमार (आईडीएएस:2004) को वस्त्र मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13

(1,23,100/- रुपए-2,15,900/-रुपए) में दिनांक 24.08.2018 से 04.06.2023 तक की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जयश्री शिव कुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

सं.ए-19014/1/2018-स्था.:—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.08.2018 के का.ज्ञा. सं.3/1/2017-सीएस.॥ (ए) भाग.॥ के अनुसरण में श्रीमती रेनू बाधवा को वस्त्र मंत्रालय में पे-मैट्रिक्स के लेवल-11 (67,700-2,08,700/- रुपए) में दिनांक 29 अगस्त, 2018 के पूर्वाह्न से प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जयश्री शिवकुमार
अवर सचिव

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2018

सं.ए-38012/4/2018-स्था.:—श्री कौशलेन्द्र पंत, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, वस्त्र मंत्रालय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त हो जाने पर दिनांक 31.08. 2018 के अपराह्नसे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

फा. सं. ए-19011/7/2018-स्थापना-सीपीसी.—वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (आई.ई.एस. संवर्ग प्रभाग) के दिनांक 01.08.2018 के आदेश सं. टी-27/2018 के अनुसरण में और दिनांक 01.08.2018 के आदेश संख्या ए-19013/10/2015-एचआर के द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप डॉ. पी.जी.एस. राव (आई.ई.एस. : 2003), निदेशक को लेवल-13 (वेतनमान 1,23,100-2,15,900 रु.) में दिनांक 27.08.2018 के पूर्वाह्न से रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग की नामावली में शामिल किया जाता है।

टी.पी.एन. सिंह
उप सचिव

कोयला मंत्रालय
नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

सं. स्था-ए-22012/3/2018-स्थापना (I) .—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जून, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31/19/2018-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में श्री योगेश विजय कुम्भेज्का, आईएएस (महाराष्ट्र: 2016) को 02.07.2018 से 28.09.2018 तक 3 महीनों की अवधि के लिए कोयला मंत्रालय में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहायक सचिव, भारत सरकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजीव भट्टाचार्य
अवर सचिव

सं. स्था-ए-22012/3/2018-स्थापना (I).—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जून, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31/19/2018-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में सुश्री अलंकृता पाण्डेय, आईएएस (पश्चिम बंगाल: 2016) को 02.07.2018 से 28.09.2018 तक 3 महीनों की अवधि के लिए कोयला मंत्रालय में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहायक सचिव, भारत सरकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजीव भट्टाचार्य
अवर सचिव

सं. स्था-ए-22012/3/2018-स्थापना (I).—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जून, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं. 31/19/2018-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में श्री बधावत संतोष, आईएएस (तेलंगाना: 2016) को 02.07.2018 से 28.09.2018 तक 3 महीनों की अवधि के लिए कोयला मंत्रालय में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहायक सचिव, भारत सरकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजीव भट्टाचार्य
अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

सं.ए-38011/25/2018-स्थापना.—माननीय राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत श्रीमती रेनु सक्सेना, अवर सचिव को दिनांक 31 अगस्त, 2018 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

कुलदीप कुमार
अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीएचएस- 1 अनुभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

संख्या० ए० 12025/21/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. स्वाति शर्मा को दिनांक 23 मार्च, 2015 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. स्वाति शर्मा को भारत सरकार प्रैस, फ़रीदाबाद के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वह दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं. ए. 12025/21/2016-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० प्रतीश राना को दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी०बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-

संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० प्रतीश रानाको राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं. ए. 12025/80/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रवीन कुमार सिंह को दिनांक 01 मई, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. प्रवीन कुमार सिंह को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

सं. ए. 12025/145/2017-सीएचएस-III.—राष्ट्रपति महोदय, डॉ. ज्योति सिंह को दिनांक 03.10.2017 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में संवेदनाहर न की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. माहेश्वरी
अवर सचिव

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

सं. ए. 12025/7/2016-सीएचएस-III.—राष्ट्रपति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अमित गुप्ता को दिनांक 11.11.2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बालरोग शल्यचिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. माहेश्वरी
अवर सचिव

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2018

सं. ए. 12025/154/2017-सीएचएस-III.—राष्ट्रपति महोदय, डॉ. ज्ञान रंजन कुमार को दिनांक 14.10.2017 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में शल्य चिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी.डी. माहेश्वरी
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद, 28 अगस्त, 2018

सं.नाईस/काप्रभ-I/04/06/1048.—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्री के. सुरेश बाबू, जन संपर्क सहायक, कार्मिक कूटांक 5866 को दिनांक 07.07.2018 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक जन संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के.पी.एस. पिल्लै

प्रशासनिक अधिकारी-III

सं.नाईस/काप्रभ-I/03/58/1047.—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्री टी. वरहाल राजू, सहायक कार्मिक अधिकारी, का.कू. 3000 (सेवानिवृत्ति के पूर्व छुट्टी पर होने के कारण) के स्थान पर नियमित सहायक कार्मिक अधिकारी की तैनाती होने तक श्री एम. नरसिंग राव, सहायक, का.कू. 4791 को तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 में दिनांक 23.07.2018 से या भावी आदेश होने तक जो भी पहले हो, स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के.पी.एस. पिल्लै

प्रशासनिक अधिकारी-III

हैदराबाद, 29 अगस्त, 2018

सं. एनएफसी/पी ए आर-II/पदो.18/969.—राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड“एफ”को दिनांक 01.07.2018 से भावी आदेशों तक इसी ईकाई में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13(ए) में स्थानापन्न हैसियत में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड “जी” में नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)
1.	विजय कौशिक
2.	सी. चिन्ना साईलू
3.	एम पलवेसम
4.	एन मानिका शेनॉय

के.पी.एस.पिल्लै

प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. एनएफसी/पी ए आर॥/पदो.18/966.—राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/ अभियंताओं को भावी आदेशों तक दिनांक 01.07.2018 से इसी ईकाई में, ग्रेड “एच” से वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 में स्थानापन्न हैसियत में “उत्कृष्ट वैज्ञानिक” के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	कार्मिक कूटांक	नाम
1	4002	(श्रीमती) शीला
2	4496	(श्रीमती) मीना रविन्द्रन

के.पी.एस.पिल्लै
प्रशासनिक अधिकारी— III

मुम्बई, 5 सितम्बर, 2018

सं. 6(2719)/2016-प्रशा./10091.—राष्ट्रपति ने श्री अभय कुमार, आई आर एस (सी एण्ड सीई : 2004) द्वारा धारित उप सचिव के पद को उनके वैयक्तिक उपाय के रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में निदेशक [वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13] के रूप में दिनांक 12 जुलाई 2018 के पूर्वाह्न से पुनः पदनामित करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। फलस्वरूप, उनका कार्यकाल केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत दिनांक 31.01.2021 तक अर्थात् कुल पांच वर्ष अथवा भावी आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगा।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

(प्रशासन अनुभाग)

मुम्बई, 5 सितम्बर, 2018

सं. 6(2732)/2016-प्रशा./9997.—राष्ट्रपति द्वारा श्री अनुपम शर्मा, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-15], पञ्चवि शाखा सचिवालय, नई दिल्ली को 01 जुलाई 2018 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग शाखा सचिवालय, नई दिल्ली में विशिष्ट वैज्ञानिक [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-16] के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

सं. 6(2777)/2017-प्रशा./10066.—राष्ट्रपति द्वारा श्री एस. के अग्रवाल, वैज्ञानिक अधिकारी-‘जी’, [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-13A], पञ्चवि सचिवालय, मुम्बई को 01 जुलाई 2018 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में वैज्ञानिक अधिकारी-‘एच’ [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-14] के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

सं. 6(2274)/99-प्रशा./10065.—राष्ट्रपति द्वारा श्री अरूण श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी-‘एच’, [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-14], पञ्जवि सचिवालय, मुम्बई को 01 जुलाई 2018 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई में उत्कृष्ट वैज्ञानिक [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-15] के रूप में नियुक्त किया जाता है।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

सं. 6(2819)/2018-प्रशा./9391.—राष्ट्रपति, श्री यादावल्ली कमलाकर, प्रशासनिक अधिकारी-III [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11], बीएआरसी, मुम्बई को दिनांक 21 जून 2018 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई में अवर सचिव [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11] के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

सं. 6(2815)/2018-प्रशा./9204.—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री डी. के शिंदे, वरिष्ठ लेखा अधिकारी [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10], पञ्जवि, मुम्बई को दिनांक 15 जून 2018 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई में उपलेखा नियंत्रक [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11] के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

सं. 6(2810)/2018-प्रशा./9028.—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के श्री पी. मुरुगन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10], भारी पानी संयंत्र, तृतीकोरिन को दिनांक 17 मई 2018 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई में उपलेखा नियंत्रक [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11] के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

सं. 6(2803)/2018-प्रशा./4135.—संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, डॉ. राज कुमार झा, सहायक कार्मिक अधिकारी [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-8], आईजीकार, कल्पाकूम को दिनांक 08 मार्च 2018 (अपराह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुम्बई में अनुभाग अधिकारी [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-8] के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

सं. 6(2804)/2018-प्रशा./4380.—राष्ट्रपति, सुश्री रिचा बागला, आई ए एस (एम एच: 1999) को दिनांक 09 मार्च, 2018 की अपराह्न से प्रभावी रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा भावी आदेश होने तक इनमें से जो भी पहले हो, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई में संयुक्त सचिव(वित्त) [वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14] के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

सं. 6(2805)/2018-प्रशा./5206.—राष्ट्रपति, एनएफसी सम्पर्क कार्यालय, मुम्बई के सहायक जन सम्पर्क अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल-08) श्री उन्मेश एस. चास्कर को दिनांक 14 मार्च 2018 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में परमाणु ऊर्जा विभाग, शाखा सचिवालय, नई दिल्ली में जन सम्पर्क अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स का लेवल-10) के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

सं. 6(2695)/2015-प्रशा./6495.—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री ए. नागेश्वर राव, उपलेखा नियंत्रक [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11], पऊवि, मुम्बई को दिनांक 02 मई 2018 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) [वेतन मैट्रिक्स का लेवल-12] के रूप में नियुक्त करते हैं।

अशोक बी. गेरीरा
अवर सचिव

(भारी पानी बोर्ड)

मुम्बई 4 सितम्बर, 2018

सं./भापाबो/भर्ती/R/4(15)/2017/5108.—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड(केंद्रीय कार्यालय) तथा भारी पानी संयंत्र (कोटा/बडौदा/तुतीकोरिन/तालचेर/हज़ीरा/थल) के निम्नलिखित अधिकारियोंको कॉलम सं. 4 में उनके नाम के सामने उल्लिखित पद एवं तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी संयंत्र में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन मैट्रिक्स लेवल भी नीचे उल्लिखित किया गया है :

क्रम संख्या	नाम (श्री / श्रीमति / कु)	वर्तमान ग्रेड	समिति की संस्तुति	प्रभाग / एकक	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1	सामंत सुमन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापाबो(के.का.)	01.07.2017
2	कुमारी मनीषा राठी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापास(हज़ीरा)	01.07.2017
3	श्याम सुन्दर महतो	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापास(हज़ीरा)	01.07.2017
4	अमित रंजन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापास(थल)	10.07.2017
5	डॉ महेश मोटवानी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापास (कोटा)	01.07.2017
6	नीलांजन घोष	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापास (कोटा)	01.07.2017
7	राहुल कुमार राजौरा	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापास (कोटा)	01.07.2017
8	सुमित गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापास (कोटा)	01.07.2017
9	तापस रंजन साहू	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापास (बडौदा)	01.07.2017
10	नितिन रावत	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापास (बडौदा)	01.07.2017
11	डॉ दीपक कान्त वर्मा	वैज्ञानिक	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापास (बडौदा)	01.07.2017

क्रम संख्या	नाम (श्री / श्रीमति / कु)	वर्तमान ग्रेड	समिति की संस्तुति	प्रभाग / एकक	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
		अधिकारी/सी			
12	कोमेरा वेंकटेश्वरु	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2017
13	सि श्रीनिवासुलु रेड्डी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2017
14	सरोज कान्त परिड़ा	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	भापासं (तालचेर)	01.07.2017

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित निचले पद का पदभार सामने दर्शाई गई तारीख से छोड़ दिया है।

वेतन मैट्रिक्स में लेवल :

पद	वेतन मैट्रिक्स
वैज्ञानिक अधिकारी/ई	लेवल - 12
वैज्ञानिक अधिकारी/डी	लेवल - 11

एस. एस. गोंडाणे
प्रशासन अधिकारी- III

मुम्बई, 5 सितम्बर, 2018

संदर्भ: भापाबो/भर्ती/4(13)/2018/5138.—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/भारी पानी संयंत्र (कोटा/तुतीकोरिन/तालचेर/मणुगुरु) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी / अभियंता ग्रेड 'एफ', (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में वैज्ञानिक अधिकारी / अभियंता ग्रेड 'जी' (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13-क) में नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्व/श्री	कार्यालय / संयंत्र	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	नितेश मेहता	भापोबो (के.का)	01.07.2018
2.	मनोज कुमार बाजपेयी	भापासं (कोटा)	01.07.2018
3.	अश्वनी कुमार बाण्डे	भापासं (कोटा)	01.07.2018
4.	तम्मा श्रीनिवास रेड्डी	भापासं (कोटा)	01.07.2018
5.	गोपाल कृष्ण जौहरी	भापासं (कोटा)	01.07.2018
6.	रामकृष्णन प्रेमचन्द	भापासं (तुतीकोरिन)	01.07.2018
7.	मानस रंजन साहु	भापासं (तालचेर)	01.07.2018
8.	कारुमूरि नाग गोपाल कृष्ण	भापासं (मणुगुरु)	02.07.2018
9.	डॉ. ताडेपत्ती विजयकुमार	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2018
10.	आलमूरि चंद्रशेखर	भापासं (मणुगुरु)	01.07.2018

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अपने निचले पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

सैम्सन वर्गीस
मुख्य प्रशासन अधिकारी

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सं. ए- 19011/13/2018-स्थापना.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.08.2018 के आदेश संख्या 3/2/2018-सीएस-1 (डी) के तहत श्री राजेश कुमार सिंह (सीएसएल सं. 3784-ए), जो दिनांक 01.08.2018 से 16.08.2018 तक अनिवार्य प्रतीक्षा पर थे, की तैनाती के परिणामस्वरूप, उन्होंने दिनांक 17.08.2018 (पूर्वाह्न) से संस्कृति मंत्रालय में निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

सुनीता धावले
अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग)

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2018

सं.पीएफ/4107/एनआईसी/2018/प्रशा-I.—राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मुख्यालय, नई दिल्ली, में कार्यरत श्री एम शिवराजु, वैज्ञानिक-डी, कर्मचारी कोड -4107 का स्वर्गवास दिनांक 14/02/2018 को हो गया है।

पी. आर. डबराल
उपनिदेशक (प्रशा.)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2018

सं.पीएफ/1013/एनआईसी/2018-प्रशा-I.—डॉ वेमुरी शिव राम कृष्णयाह, वैज्ञानिक-जी (कर्मचारी कोड : 1013), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 30 जून, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया गया है।

पी. आर. डबराल
उपनिदेशक (प्रशा.)

सं.पीएफ/1582/एनआईसी/2018-प्रशा-I.—श्रीमती मंजू जिंदल, वैज्ञानिक-जी (कर्मचारी कोड : 1582), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 30 जून, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया गया है।

पी. आर. डबराल
उपनिदेशक (प्रशा.)

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018

सं.पीएफ/1292/एनआईसी/2018-प्रशा-I.—श्री देबाशीश सरकार, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड : 1292), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 31 जुलाई, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से झूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. आर. डबराल
उपनिदेशक (प्रशा.)

सं.पीएफ/364/एनआईसी/2018-प्रशा-I.—डॉ परबोध चंद ठाकुर, वैज्ञानिक-ई (कर्मचारी कोड : 364), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 31 जुलाई, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से झूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. आर. डबराल
उपनिदेशक (प्रशा.)

सं.पीएफ/248/एनआईसी/2018-प्रशा-I.—श्री नाथूराम त्रिपाठी, वैज्ञानिक-एफ (कर्मचारी कोड : 248), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 31 जुलाई, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से झूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. आर. डबराल
उपनिदेशक (प्रशा.)

सं.पीएफ/318/एनआईसी/2018-प्रशा-I.—श्री तरुण कुमार जैन, वैज्ञानिक-ई (कर्मचारी कोड : 318), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 31 जुलाई, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से झूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. आर. डबराल
उपनिदेशक (प्रशा.)

सं.पीएफ/374/एनआईसी/2018-प्रशा-I.—श्री अरुण कुमार सूद, वैज्ञानिक-ई (कर्मचारी कोड : 374), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 31 जुलाई, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से झूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. आर. डबराल
उपनिदेशक (प्रशा.)

सं.पीएफ/1506/एनआईसी/2018-प्रशा-I.—डॉअंब्रेश कुमार, वैज्ञानिक-जी (कर्मचारी कोड : 1506), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 31 जुलाई, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से झूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. आर. डबराल
उपनिदेशक (प्रशा.)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सं.पीएफ/0770/एनआईसी/2017/प्रशा.-II.—श्री अमर सिंह, अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. 0770) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली दिनांक 31 जुलाई, 2017 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया गया है।

यू.सी. सक्सेना
उप निदेशक (प्रशा.-II)

सं.पीएफ/0769/एनआईसी/2017/प्रशा.-II.—श्री घनश्याम दास, अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. 0769) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली दिनांक 30 अप्रैल, 2017 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया गया है।

यू.सी. सक्सेना
उप निदेशक (प्रशा.-II)

सं.पीएफ/0756/एनआईसी/2017/प्रशा.-II.—श्री मांगे राम, अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी कोड सं. 0756) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली दिनांक 31 मार्च, 2017 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया गया है।

यू.सी. सक्सेना
उप निदेशक (प्रशा.-II)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2018

सं.07/2018फा.सं.2/1/2013-प्रशा.II.—राष्ट्रपति, श्री कमलेश कुमार मिश्रा, आईआरटीएस (2003), निदेशक, विद्युत मंत्रालय की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को 18.08.2018 से आगे 1 वर्ष की अवधि (अर्थात् केंद्रीय कर्मचारी व्यवस्था योजना पद पर कुल 6 वर्ष) अथवा अगले आदेशों के होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं।

2. श्री कमलेश कुमार मिश्र, निदेशक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि की गणना 19.08.2013 से की जाएगी।

सतिन्दर कौर
अवर सचिव

NITI AYOJ

(DEVELOPMENT MONITORING AND EVALUATION OFFICE)

(ADMINISTRATIVE DIVISION)

New Delhi, the 31st August, 2018

No. A-19011/14/2017-DMEO(Admn.).—On attaining the age of superannuation, Shri A. Rama Mohan Rao (IES:2003), Director, Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO), NITI Ayog, New Delhi retires from Government Service w.e.f. 31.8.2018 (A/N) and accordingly his name is struck off the rolls of DMEO.

PRASHANT KUMAR SINGH
Under Secretary

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)

(ADMINISTRATIVE DIVISION)

New Delhi, the 30th August, 2018

No. DP/Pers/2018/3755.—Services of Shri Suny Bhargav, Income Tax Officer, posted DSP in CBI DSSB Mumbai on deputation basis are placed back to his parent department i.e. Income Tax w.e.f. 16.08.2018 (A/N) on *premative repatriation*.

D. P. SINGH
Admin. Officer (Admin.)
CBI HO New Delhi

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th August, 2018

No. I-14011/15/2017-IPS.I (II).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Kerala Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Kerala Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2016

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Jamaludheen A.K.	15.03.1960
2.	Abdul Karim U.	05.04.1961
3.	Antony K.M.	28.05.1960
4.	Sukumara Pillai J.	30.05.1960
5.	Xavier T.F.	18.05.1961
6.	Sabu P.S.	29.05.1961
7.	Vijaya Kumaran K.P.	24.05.1960
8.	Vimal K.S.	30.05.1960
9.	James Joseph	31.05.1960
10.	Tomy K.M.	09.01.1960
11.	Madhu P.K.	11.12.1961
12.	Sukesan R.	30.05.1961

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

AJAY KUMAR SINGH
Under Secretary

No. I-14011/15/2017-IPS.I (I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 09.08.2018 approved the Select List of the year 2016 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 04.07.2018, containing the names of the following State Police Service Officers of Kerala towards filling up of 13 substantive vacancies in the Kerala Cadre of Indian Police Service:-

Select List 2016

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Jamaludheen A.K.	15.03.1960
2.	Abdul Karim U.	05.04.1961
3.	Antony K.M.	28.05.1960
4.	Sukumara Pillai J.	30.05.1960
5.	Xavier T.F.	18.05.1961
6.	Sabu P.S.	29.05.1961
7.*	Ramachandran C.K.	01.06.1961
8	Vijaya Kumaran K.P.	24.05.1960
9.	Vimal K.S.	30.05.1960
10.	James Joseph	31.05.1960
11.	Tomy K.M.	09.01.1960
12.	Madhu P.K.	11.12.1961
13.	Sukesan R.	30.05.1961

* The name at S.No. 7 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings, criminal proceedings pending against him and grant of integrity certificate by the State Government.

AJAY KUMAR SINGH
Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 13th August, 2018

No.14015/01/2017-AIS(I)-B.—Consequent upon declaration of inclusion of the following name as ‘Unconditional and Final’ by the Union Public Service Commission through its letter No. F. No. 06/01/2018-AIS dated 10.08.2018 in the Select List of 2015, as per the details given alongside the name, which was notified through this department’s notification No. 14015/01/2017-AIS(I)-A dated 12.02.2018 and in exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member of the State Civil Service of Andhra Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2015 (SCS) on probation until further orders and to allocate him to the Andhra Pradesh cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:

Select List of 2015

S.No.	Name of the Officers(Smt/Shri)	D.O.B	Position in the Select List
1.	T. Veerabrahmaiah	(12.06.1959)	At the S.No. 2 in the Select List of 2015 prepared on 30.01.2018

2. The appointment of the officer mentioned above will take effect from the date of issue of this notification.

PANKAJ GANGWAR
Under Secretary

New Delhi, the 27th August, 2018

No. 22012/38/2017-AIS(I)-A.—In compliance with the directions of Hon'ble CAT, Bombay Bench at Mumbai in their order dated 11.04.2018 in OA. No. 2075/2017 filed by Shri A. B. Dhulaj and also in partial modification of this Department's notification No. 14015/14/2016-AIS(I)-A(1) dated 08.07.2016, the President is pleased to notify the Review Select List of 2015, prepared on the basis of review on 27.07.2018 under the Regulation 5 and approved on 24.08.2018 under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies of Maharashtra of IAS under State Civil Service Category determined by the Government of India Under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government as under:-

Review Select List of 2015

Sl. No. added to the original Select List	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
9A	A. B. Dhulaj	01.06.1969

PANKAJ GANGWAR
Under Secretary

No. 22012/38/2017-AIS(I)-B.—In compliance with the directions of Hon'ble CAT, Bombay Bench at Mumbai in their order dated 11.04.2018 in OA. No. 2075/2017 filed by Shri A. B. Dhulaj and also in partial modification of this Department's notification No. 14015/14/2015-AIS(I)-B(1) dated 08.07.2016, the President is pleased to appoint the following member of the State Civil Service of Maharashtra cadre to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government on the basis of the Review Select List of 2015, on probation until further orders and to allocate him to the Maharashtra cadre, under the Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Review Select List of 2015

Sl. No. added to the original Select List	Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
9A	A. B. Dhulaj	01.06.1969

PANKAJ GANGWAR
Under Secretary

No.23012/01/2015-AIS-III .—Shri Devi Lal, IAS (Gujarat: 2016) has been permitted to change his name from "Devi Lal to DevChoudhary." He will accordingly be recognized as "Dev Choudhary" for all official purposes.

JYOTSNA GUPTA
Under Secretary

No.23012/01/2015-AIS-III.—Ms. Reena Niranjana, IAS(WB:2013) has been permitted to change her name from “Ms Reena Niranjana to “Smt. Reena Joshi ”. She will accordingly be recognized as “Smt. Reena Joshi”for all official purposes.

JYOTSNA GUPTA
Under Secretary

New Delhi, the 30th August, 2018

No.14012/02/2014-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Smt V. S Alagu Varsini, a member of the Indian Administrative Service of 2012 batch in the Indian Administrative Service, with effect from 03/09/2014.

JYOTSNA GUPTA
Under Secretary

New Delhi, the 31st August, 2018

No. 14015/24/2018-AIS (I)-A.—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of West Bengal containing the following names prepared on 02.08.2018 under Regulation 5(5) and approved on 30.08.2018, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in West Bengal cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government:-

Select List 2017 (Against vacancies arisen between 1.01.2017 to 31.12.2017)

Sl. No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.	Tarun Kumar Mukhopadhyay	05.01.1963
2.	Dipankar Chowdhury	22.06.1966
3.	Rabindra Nath Sarkar	07.05.1961
4.	Smt. Esha Sengupta	25.01.1964
5.	Smt. Sarmistha Das	16.06.1967
6.	Nilanjana Sandilya	03.03.1965
7.	Soumya Purkait	25.12.1967
8.	Smt. Dipika Sanyamath	16.12.1967
9.	Sristidhar Santra (SC)	02.11.1963
10.	Pemba Tshering Sherpa (ST)	03.01.1963
11.	Alokesh Prosad Roy	26.12.1964
12.	Smt. Mahua Banerjee	02.01.1964
13.	Jayanta Kumar Aikat	03.09.1963
14.	Soumitra Sankar Sengupta	08.03.1967
15.	Gautam Majumdar	24.04.1964
16.	Jyotishman Chattopadhyay	13.10.1967
17.	Utpal Biswas-II	25.09.1965

PANKAJ GANGWAR
Under Secretary

No. 14015/24/2018-AIS (I)-B.—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of West Bengal to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with

the State Government for the Select List of 2017, on probation until further orders and to allocate them to the West Bengal Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List 2017 (Against vacancies arisen between 1.01.2017 to 31.12.2017)

Sl. No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.	Tarun Kumar Mukhopadhyay	05.01.1963
2.	Dipankar Chowdhury	22.06.1966
3.	Rabindra Nath Sarkar	07.05.1961
4.	Smt. Esha Sengupta	25.01.1964
5.	Smt. Sarmistha Das	16.06.1967
6.	Nilanjan Sandilya	03.03.1965
7.	Soumya Purkait	25.12.1967
8.	Smt. Dipika Sanyamath	16.12.1967
9.	Sristidhar Santra (SC)	02.11.1963
10.	Pemba Tshering Sherpa (ST)	03.01.1963
11.	Alokes Prosad Roy	26.12.1964
12.	Smt. Mahua Banerjee	02.01.1964
13.	Jayanta Kumar Aikat	03.09.1963
14.	Soumitra Sankar Sengupta	08.03.1967
15.	Gautam Majumdar	24.04.1964
16.	Jyotishman Chattopadhyay	13.10.1967
17.	Utpal Biswas-II	25.09.1965

PANKAJ GANGWAR
Under Secretary

No.44011/20(s)/2015-Est (B).—Ms Gauri Kumar, Member, Public Enterprises Selection Board (PESB), took over additional charge of the post of Chairperson, Public Enterprises Selection Board (PESB), with effect from 20.08.2018 (forenoon) till 27.09.2018 i.e. the date on which she completes her tenure as Member, PESB or until further orders, whichever is earlier.

SMITA SARANGI
Deputy Secretary

No. 44011/14(s)/2015-Estt.(B-II)(Pt-II).—Shri Ansuman Das has relinquished the charge of the post of Member and additional charge of the post of Chairman, Public Enterprises Selection Board (PESB), with effect from 18.08.2018 (afternoon).

SMITA SARANGI
Deputy Secretary

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 30th August, 2018

No.A-19011/11/2018-Ad.Gztd.—The President is pleased to appoint Shri Provash Ranjan Biswas, IOFS (2002) as Director in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 27.08.2018 in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 18/2/2018-EO(MM-I) dated 11.07.2018.

DEBASHISH HALDAR
Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 14th August, 2018

No. A-38-12/03/2018-Ec.Ad.(Admn.I).—On attaining the age of superannuation, Ms. Sunita Chhibba, Principal Adviser in the Office of the Economic Adviser, Department of Industrial Policy & Promotion Ministry of Commerce & Industry, shall stand retired from the Government service with effect from the afternoon of 31st August, 2018.

GOPAL SINGH NEGI
Economic Adviser

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 31st May, 2018

No.-38013/2/2017-Estt.—Shri Vijay Kumar Verma, Section Officer in the Ministry of Textiles has retired from Government service on attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st May, 2018.

JAYASHREE SIVAKUMAR
Under Secretary

New Delhi, the 3rd July, 2018

No. A-42011/19/2018-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 31/19/2018-EO (MM-1) dated 21.06.2018 the President is pleased to appoint the following IAS Officers of 2016 Batch as Assistant Secretary in Level 10 (Rs 56,100-1,77,500) of the Pay Matrix in the Ministry of Textiles, New Delhi with effect from the forenoon of 2-7-2018 till 28.9. 2018.

1. Shri Srikanth H S (Tamil Nadu Cadre)
2. Shri Shashank Tripathi (Uttar Pradesh Cadre)

JAYASHREE SIVAKUMAR
Under Secretary

New Delhi, the 17th July, 2018

No.A-12022/02/2017-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Atul Kumar Tiwari, IAS (KN:90), as Joint Secretary in the Ministry of Textiles, New Delhi in the Level-14 (Rs.1,44,200 - 2,18,200 /-) of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 16th July 2018 by temporarily downgrading a vacant post of Additional Secretary in the Ministry in pursuance of Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel and Training's Communication No. 36/02/2018-EO(SM-I) dated 30.06.2018.

ISHWAR SHARAN
Under Secretary

New Delhi, the 10th August, 2018

No.A-19011/1/2018-Estt.—The President is pleased to appoint ShriRaghvendra Singh, IAS (WB:1983) as Secretary, Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 10th August, 2018 in pursuance of DoP&T (ACC)'s communication No. 36/01/2018-EO (SM.I) dated 09.08.2018.

HEMANT KUMAR NANDA
Under Secretary

New Delhi, the 30th August, 2018

No.A-19013/3/2018-Estt.—Consequent upon redesignation of the post of Deputy Secretary presently held by ShriBalram Kumar as Director, as a measure personal to him, the President is pleased to appoint Shri Balram Kumar (IDAS:2004) as Director in the Ministry of Textiles in the Level 13 (Rs.1,23,100 - 2,15,900/-) of the Pay Matrix w.e.f. 24.08.2018 for a period upto 04.06.2023 or until further orders whichever is earlier in pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 10/4/2018- EO (MM-I) dated 23.08.2018.

JAYASHREE SIVAKUMAR
Under Secretary

New Delhi, the 31st August, 2018

No.A-19014/01/2018-Estt. —In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M No.3/1/2017-CS.II(A)Pt.I dated 20.08.2018, the President is pleased to appoint Smt. Renu Wadhwa, Principal Private Secretary (PPS)in the Ministry of Textiles in Level-11 (Rs. 67,700/- - Rs. 2,08,700/-) of Pay Matrix with effect from the forenoon of 29th August, 2018.

JAYASHREE SIVAKUMAR
Under Secretary

New Delhi, the 5th September, 2018

No.-38012/4/2018-Estt. —Sh. Kaushalendra Pant, Sr. Principal Private Secretary in the Ministry of Textiles has retired from Government service on his attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st August, 2018.

JAYASHREE SIVAKUMAR
Under Secretary

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 29th August, 2018

F. No. A-19011/7/2018-Estt.—CPC.—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (IES Cadre Division) Order No. T-27/2018 dated 01.08.2018 and consequent upon his relieving from Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises Order No. A-19013/10/2015-HR dated 07.08.2018, Dr. P.G.S. Rao., (IES:2003), Director, is taken on the rolls of the Department of Chemicals and Petrochemicals, in the Level 13(Pay band - Rs. 123100-215900), with effect from the forenoon of 27.08.2018.

T.P.N.SINGH
Under Secretary

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 31st July, 2018

No. Est-A-22012/3/2018-ESTABLISHMENT (I).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 31/19/2018-EO (MM-I) dated 21st June, 2018, the President is pleased to appoint Shri Yogesh Vijay Kumbhejka, IAS (Maharashtra: 2016) as Assistant Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal for a period of 3 months with effect from 02.07.2018 to 28.09.2018 on Central Deputation.

SANJIB BHATTACHARYA
Under Secretary

No. Est-A-22012/3/2018-ESTABLISHMENT (I).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 31/19/2018-EO (MM-I) dated 21st June, 2018, the President is pleased to appoint Ms. Alankrita Pandey, IAS (West Bengal: 2016) as Assistant Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal for a period of 3 months with effect from 02.07.2018 to 28.09.2018 on Central Deputation.

SANJIB BHATTACHARYA
Under Secretary

No. Estt.22012/3/2018-ESTABLISHMENT(I).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Office memorandum No. 31/19/208-EO (MM-I) dated 21st June, 2018, the President is pleased to appoint Shri Badhavath Santhosh, IAS (Tellegana:2016) as Assistant Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal for a period of 3 months with effect from 02.07.2018 to 28.09.20918 on Central Deputation.

SANJIB BHATTACHARYA
Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 31st August, 2018

No. A-38011/25/2018-Estt.—The Hon'ble President is pleased to retire Smt. Renu Saxena, Under Secretary, Department of Scientific and Industrial Research from Govt. Service on 31st August, 2018 (A/N) on attaining the age of superannuation.

KULDIP KUMAR
Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(CHS I SECTION)

New Delhi, the 28th August, 2018

No.A12025/21/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Swati Sharma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400]in a temporary capacity with effect from the forenoon of 23rd March, 2015 until

further orders. Dr. Swati Sharma is posted as Medical Officer under Government of India Press, Faridabad. She will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY
Under Secretary

No.A.12025/21/2016-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Proteesh Rana to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14th September, 2016 until further orders. Dr. Proteesh Rana is posted as Medical Officer under Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY
Under Secretary

No.A.12025/80/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Praveen Kumar Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01st May, 2017 until further orders. Dr. Praveen Kumar Singh is posted as Medical Officer under Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY
Under Secretary

New Delhi, the 29th August, 2018

No.A.12025/145/2017-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Jyoti Singh to the post of Assistant Professor in the speciality of Anaesthesia in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 03.10.2017 and until further orders.

D.D. MAHESHWARI
Under Secretary

New Delhi, the 4th September, 2018

No.A.12025/7/2016-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Amit Gupta to the post of Assistant Professor in the specialty of Paediatric Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 11.11.2016 and until further orders.

D.D. MAHESHWARI
Under Secretary

New Delhi, the 10th September, 2018

No.A.12025/154/2017-CHS.III.—The President is pleased to appoint Dr. Gyan Ranjan Kumar to the post of Assistant Professor in the speciality of Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 14.10.2017 and until further orders.

D.D. MAHESHWARI
Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(NUCLEAR FUEL COMPLEX)

Hyderabad, the 28th August, 2018

Ref: NFC/PAR-I/04/06/1048.—Chief Executive, Nuclear Fuel Complex appoints Shri K. Suresh Babu, PRA, EC No.5866 to officiate as Assistant Public Relations Officer on ad-hoc basis in the Level 8 of the Pay Matrix with effect from 07.07.2018(FN) until further orders.

K.P.S. PILLAI
Administrative Officer-III

Hyderabad, the 28th August, 2018

Ref: NFC/PAR-I/04/06/1047.—Chief Executive, Nuclear Fuel Complex appoints Shri M. Narasinga Rao, Assistant, EC No.4791 to officiate as Assistant Personnel Officer on ad-hoc basis in the Level 8 of the Pay Matrix with effect from 23.07.2018(FN) ,vice Shri T. Varahala Raju, APO, EC No.3000 (on Leave Preparatory to Retirement)till a regular APO is posted or until further orders, whichever is earlier.

K.P.S. PILLAI
Administrative Officer-III

Hyderabad, the 29th August, 2018

Ref: NFC/PAR.II/Prom.18/969.—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers / Engineers Grade 'F' to the grade of Scientific Officer/ Engineer 'G' in the Level 13(A) of Pay Matrix of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad with effect from 01.07.2018 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders:

S.No.	Name (S/Shri/Smt)
1.	VIJAY KAUSHIK
2.	C CHINNA SAILOO
3.	M PALAVESAM
4.	N MANICKA SHENOY

K. P. S. PILLAI
Administrative Officer-III

Ref: NFC/PAR.II/Prom.18/966.—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers / Engineer grades “H” to the grade of “Outstanding Scientist” in the Level 15 of Pay Matrix of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad with effect from 01.07.2018 in the same Unit, in an officiating capacity until further orders:—

S. No.	EC No.	Name
1	4002	Sheela (Smt.)
2	4496	Meena Ravindran (Smt.)

K P S PILLAI
Administrative Officer – III

Mumbai, the 5th September, 2018

No.6(2719)/2016-Adm./10091:—The President has approved the re-designation of the post of Deputy Secretary held by Shri Abhay Kumar, IRS (C & CE: 2004), as Director, [Level-13 in the Pay Matrix] in Department of Atomic Energy, Mumbai, as a measure personal to him with effect from the forenoon of 12th July, 2018. His tenure would consequently be up to 31.01.2021 i.e. total tenure of five years under the Central Staffing Scheme or until further orders, whichever is earlier.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

No.6(2732)/2016-Adm/9997.—The President is pleased to appoint Shri Anupam Sharma, Outstanding Scientist, (Level- 15 of Pay Matrix), DAE Br. Sectt, New Delhi as Distinguished Scientist (Level-16 of Pay Matrix) in DAE Br. Sectt., New Delhi with effect from the forenoon of 01.07.2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

(ADMINISTRATION SECTION)

No.6(2777)/2017-Adm/ 10066: The President is pleased to appoint Shri S.K. Agrawal, Scientific Officer – ‘G’, (Level- 13 A of Pay Matrix), DAE Sectt. as Scientific Officer – ‘H’ (Level-14 of Pay Matrix) in DAE Sectt., Mumbai with effect from the forenoon of 01.07.2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

No.6(2274)/99-Adm/10065: The President is pleased to appoint Shri Arun Srivastava, Scientific Officer – ‘H’, (Level- 14 of Pay Matrix), DAE Sectt. as Outstanding Scientist (Level-15 of Pay Matrix) in DAE Sectt., Mumbai with effect from the forenoon of 01.07.2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

No.6(2819)/2018-Adm/9391.—The President is pleased to appoint Shri Yadavalli Kamalakar, Administrative Officer-III (Level- 11 of Pay Matrix), BARC, Mumbai as Under Secretary (Level-11 of Pay Matrix) in DAE Sectt., Mumbai with effect from the forenoon of 21st June, 2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

No.6(2815)/2018-Adm/9204.— The President is pleased to appoint Shri D.K. Shinde, Senior Accounts Officer (Level- 10 of Pay Matrix), BARC, Mumbai as Deputy Controller of Accounts (Level-11 of Pay Matrix) in DAE Sectt., Mumbai with effect from the forenoon of 15th June, 2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

No.6(2810)/2018-Adm/9028.—The President is pleased to appoint Shri P. Murugan, Senior Accounts Officer (Level- 10 of Pay Matrix), HWP, Tuticorin as Deputy Controller of Accounts (Level-11 of Pay Matrix) in DAE Sectt., Mumbai with effect from the forenoon of 17th May, 2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

No.6(2803)/2018-Adm/4315.—Joint Secretary, DAE is pleased to appoint Dr. Raj Kumar Jha, Assistant Personnel Officer (Level- 8 of Pay Matrix), IGCAR, Kalpakkam as Section Officer (Level-8 of Pay Matrix) in DAE Sectt., Mumbai with effect from the forenoon of 08th March, 2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

No.6(2804)/2018-Adm./4380.—The President is pleased to appoint Ms Richa Bagla, IAS (MH:1999), as Joint Secretary (Finance), [Level-14 in the Pay Matrix] in Department of Atomic Energy, Mumbai, with effect from the afternoon of 09th March, 2018 for a tenure of five years or until further orders, whichever is earlier.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

No.6(2805)/2018-Adm/5206.—The President is pleased to appoint Shri Unmesh S. Chaskar, Assistant Public Relations Officer [Level- 8 in Pay Matrix], NFC Liaison Office, Mumbai as Public Relations Officer [Level-10 of Pay Matrix], in DAE Branch Secretariat, New Delhi with effect from the forenoon of 14th March, 2018.

ASHOK B. GERIRA
Under Secretary

No.6(2695)/2015-Adm/6495.—The President is pleased to appoint Shri A. Nageswara Rao, Deputy Controller of Accounts (Level- 11 of Pay Matrix), DAE, Mumbai as Joint Controller (Finance & Accounts) (Level-12 of Pay Matrix) in DAE Sectt., Mumbai with effect from the forenoon of 02nd May, 2018 until further orders.

ASHOK B. GERIRA

Under Secretary

HEAVY WATER BOARD

Mumbai, the 4th September, 2018

Ref.: HWB/R/4(15)/2017/5108.— The President is pleased to appoint the following Officers of Heavy Water Board (Central Office) & Heavy Water Plant (Kota / Baroda / Tuticorin / Talcher / Hazira / Thal) to the post indicated against each with effect from the forenoon of date mentioned against each in the same office/plant in a temporary capacity until further orders. The Level in the Pay Matrix of the promoted posts are also indicated below:-

SL. NO.	NAME (SHRI / SMT / KUM)	PRESENT GRADE	RECOMM- ENDATION OF COMMITTEE	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1	SAMANT SUMAN	SO/C	SO/D	HWB(CO)	01.07.2017
2	KUM MANISHA RATHEE	SO/C	SO/D	HAZIRA	01.07.2017
3	SHYAM SUNDER MAHTO	SO/C	SO/D	HAZIRA	01.07.2017
4	AMIT RANJAN	SO/C	SO/D	THAL	10.07.2017
5	DR. MAHESH MOTWANI	SO/D	SO/E	KOTA	01.07.2017
6	NILANJAN GHOSH	SO/C	SO/D	KOTA	01.07.2017
7	RAHUL KUMAR RAJORA	SO/C	SO/D	KOTA	01.07.2017
8	SUMIT GUPTA	SO/C	SO/D	KOTA	01.07.2017
9	TAPAS RANJAN SAHOO	SO/D	SO/E	BARODA	01.07.2017
10	NITIN RAWAT	SO/D	SO/E	BARODA	01.07.2017
11	DR. DEEPAK KANT VERMA	SO/C	SO/D	BARODA	01.07.2017
12	KOMERA VENKATESHWARLU	SO/C	SO/D	TUTICORIN	01.07.2017
13	C SREENIVASULU REDDY	SO/C	SO/D	TUTICORIN	01.07.2017
14	SAROJ KANTA PARIDA	SO/D	SO/E	TALCHER	01.07.2017

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Level in the Pay Matrix :

Post	Pay Matrix
Scientific Officer/E	Level - 12
Scientific Officer/D	Level - 11

S.S. GONDANE

Administrative Officer –III

Mumbai, the 5th September, 2018

Ref: HWB/R/4(13)/2018/5138.—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers Grade 'F' (Level 13 in Pay Matrix) of Heavy Water Board (Central Office)/Heavy Water Plant (Kota/Tuticorin/Talcher/Manuguru) as Scientific Officer / Engineer Grade 'G' (Level 13A in Pay matrix) with effect from the forenoon of the date mentioned against each in the same plant until further orders:-

SL. NO.	NAME S/Shri	OFFICE/PLANT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	NITESH MEHTA	HWB(CENTRAL OFFICE)	01.07.2018

Sl. NO.	S/Shri NAME	OFFICE/PLANT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
2.	MANOJ KUMAR BAJPAI	HWP(KOTA)	01.07.2018
3.	ASHWANI KUMAR BANDEY	HWP(KOTA)	01.07.2018
4.	TAMMA SRINIVASA REDDY	HWP(KOTA)	01.07.2018
5.	GOPAL KRISHNA JOHRI	HWP(KOTA)	01.07.2018
6.	RAMAKRISHNAN PREMCHAND	HWP(TUTICORIN)	01.07.2018
7.	MANAS RANJAN SAHOO	HWP(TALCHER)	01.07.2018
8.	KARUMURI NAGA GOPALA KRISHNA	HWP(MANUGURU)	02.07.2018
9.	DR. THADEPATHI VIJAYA KUMAR	HWP(MANUGURU)	01.07.2018
10.	ALAMURI CHANDRA SEKHAR	HWP(MANUGURU)	01.07.2018

The above Officers relinquished the charge of lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

SAMSON VARGHESE
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 17th August, 2018

No. A-19011/13/2018-Estt. Consequent upon his posting *vide* Department of Personnel & Training Order No. 3/2/2018-CS-1(D) dated 16.8.2018, Shri Rajesh Kumar Singh (CSL No. 3784-A) who was on Compulsory wait from 1.8.2018 to 16.8.2018 has assumed the charge of Director in the Ministry of Culture in the forenoon of 17th August, 2018.

SUNITA DHAVALA
Under Secretary

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi, the 28th February, 2018

No. PF/4107/NIC/2018-Adm-I.—Shri M Shivaraju, Scientist 'D', (Emp. Code : 4107), National Informatics Centre Hqrs, New Delhi has expired on 14/02/2018.

P. R. DABRAL
Deputy Director (Admin-I)

New Delhi, the 2nd July, 2018

No. PF/1013/NIC/2018/Adm-I.—Dr. Vemuri Siva Rama Krishniah, Scientist-G (Emp. Code: 1013) of National Informatics Centre, New Delhi retired on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

P. R. DABRAL
Deputy Director (Admin.)

No. PF/1582/NIC/2018/Adm-I.—Smt. Manju Jindal, Scientist-G (Emp. Code : 1582) of National Informatics Centre, New Delhi retired on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2018 and she stands relieved of her duties from the same day.

P. R. DABRAL
Deputy Director (Admin.)

New Delhi, the 31st July, 2018

No. PF/1292/NIC/2018/Adm-I.—Shri Debasish Sarkar, Scientist-F (Emp. Code : 1292) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

P. R. DABRAL
Deputy Director (Admin.)

No. PF/364/NIC/2018/Adm-I.—Dr. Parbodh Chand Thakur, Scientist-E (Emp. Code: 364) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

P. R. DABRAL
Deputy Director (Admin.)

No. PF/248/NIC/2018/Adm-I.—Shri Nathu Ram Tripathi, Scientist-F (Emp. Code : 248) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

P. R. DABRAL
Deputy Director (Admin.)

No. PF/318/NIC/2018/Adm-I.—Shri Tarun Kumar Jain, Scientist-E (Emp. Code : 318) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

P. R. DABRAL
Deputy Director (Admin.)

No. PF/374/NIC/2018/Adm-I.—Shri Arun Kumar Sood, Scientist-E (Emp. Code : 374) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

P. R. DABRAL
Deputy Director (Admin.)

No. PF/1506/NIC/2018/Adm-I.—Dr. Ambreesh Kumar, Scientist-G (Emp. Code : 1506) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

P. R. DABRAL
Deputy Director (Admin.)

New Delhi, the 6th September, 2018

No. PF/0770/NIC/2017/Adm-II.—Sh. Amar Singh, Section Officer, (Emp. Code : 0770) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2017 and he stands relieved of his duties from the same day.

U.C. SAXENA
Deputy Director (Admin.-II)

No. PF/0769/NIC/2017/Adm-II.—Sh. Ghan Shyam Dass, Section Officer, (Emp. Code : 0769) of National Informatics Centre, New Delhi has retired on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th April, 2017 and he stands relieved of his duties from the same day.

U.C. SAXENA
Deputy Director (Admin.-II)

No. PF/0756/NIC/2017/Adm-II.—Sh. Mange Ram, Section Officer, (Emp. Code : 0756) of National Informatics Centre, New Delhi has retired on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th March, 2017 and he stands relieved of his duties from the same day.

U.C. SAXENA
Deputy Director (Admin.-II)

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 17th August, 2018

No.07/2018 F.No.2/1/2013-Adm.II.—The President is pleased to extend the Central Deputation Tenure of Shri Kamlesh Kumar Mishra, IRTS (2003), Director, Ministry of Power, for a period of one year beyond 18.08.2018 (i.e. total six years on a Central Staffing Scheme post) or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri Kamlesh Kumar Mishra Director counts his central deputation tenure w.e.f. 19.08.2013.

SATINDER KAUR
Under Secretary